

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 408]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 1970/कार्तिक/9, 1892

No. 408]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 1970/KARTIKA 19, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

New Delhi, the 10th November 1970

S.O. 3718.—In exercise of the powers conferred by Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and in partial modification of the Order of the Government of India in the Ministry of Foreign Trade No. S.O. 2970, dated the 2nd September, 1970, the Central Government hereby authorises with effect from the 10th November, 1970, the Maharashtra State Textile Corporation Limited to take over the management of the whole of the Pratap Spinning, Weaving and Manufacturing Company Limited, Amalner (Maharashtra) *vice* Shri T. G. Chowdhari.

[No. F. 7(89)/70-Tex(G).]

C. S. RAMACHANDRAN, Addl. Secy.

विदेशी व्यापार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 10 नवम्बर 1970

का० प्र० 3718 --उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के विदेशी व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का० प्र० 2970, दिनांक 2 सितम्बर, 1970 का आंशिक संशोधन करने हुए

(1819)

केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र राज्य वस्त्र निगम लि०, को, श्री डी० जी० चौधरी के स्थान पर, 10 नवम्बर, 1970 से संपूर्ण प्रताप स्पिनिंग, वीविंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि०, अमालनेर (महाराष्ट्र) का प्रबंध करने अधिकार में लेने के लिए उन्हें एतद्वारा प्राधिकृत करती है।

[सं० फा० 7(89)/70 टैक्स (जी)]

सी० एस० रामचन्द्रन, अपर सचिव।